GOLKONDA ALUMINIUM EXTRUSIONS LIMITED

(Formerly known as Alumeco India Extrusion Limited)

CIN: L74999DL1988PLC330668

Regd. Office: A-2/78-B, Keshav Puram, New Delhi – 110 035, India
Tel: +91 011 4011 0240, +91 99851 21834, E-mail: cs@gael.co.in, website: www.gael.co.in

To, 16th May, 2022

BSE Limited

Department of Corporate Services, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement for Audited Financial Results for the quarter and financial year ended 31st March, 2022.

Ref: Disclosure under Regulation 30 and 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Pursuant to Regulation 30 and 47(3) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement published on 14th May, 2022, in "Financial Express" (English Newspaper) and Jan Satta (Hindi Newspaper), regarding standalone Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended on 31st March, 2022 which were considered, approved and taken on record by the Board of Directors, in their meeting held on 13th May, 2022.

Further, in terms of Regulation 46 of the SEBI (LODR) Regulations, the aforesaid financial results are also uploaded on the website of the Company (www.gael.co.in).

You are requested to kindly take the above information on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

anand Bhar

For Golkonda Aluminium Extrusions Limited

Anand Bharti

Whole Time Director and CFO

DIN: 02469989

Encl: as above

WELSPUN GROUP Welspun Investor Corporate Identific Regd. Office: Welspun City, Village Versamedi,

Regd. Omce: vveispun ctrly, village versamedi, Tel. No. +91 2836 661111, I Email : CompanySecretary_WINL@welspun.c Corporate Office : Welspun House, 7th F Lower Parel (West), Mumbai – 400013. Tel. No.

NOTICE OF BO

Notice is hereby given that pursuant to Regular and Disclosure Requirements) Regulations, the Company is scheduled to be held on Frid approve the Audited Financial Statements of 2022.

For Welspu

Place : Mumbai Date : May 13, 2022



एसजेवीएन लिमिटे (भारत सरकार एवं हिमाच (A Joint Venture of Govt. of A MINI RATNA & S CIN No. L40101H

Invitation for Expr

SJVN Ltd. invites open EOI from I 'Expression of Interest for for Company for Non-Core Business For details, visit websites www.sjvn. Last date for submission of appli Amendments, if any, shall be issue

HOD (Civil Contracts Shanan, Shimla-171006 (H.P.)

INVITATION FOR SUBMISSION OF RESC

ImagicaaWorld Entertainment Limited operates an integrated entertainment park and a water park (under brand Imagicaa. The Company had availed consortium of lenders led by the Union Company subsequently came under strits debt obligation dues towards the Lerentered into an inter-creditor agreement the Reserve Bank of India's ("RBI") Pr Stressed Assets (RBI/2018-19/203 D, dated 7 June 2019 (as amended or mod

All interested bidders may kindly note t conducted by the Lenders, Lenders h January 2022 read with additional le

Golkonda Aluminium Extrusions Limited (Formerly known as Alumeco India Extrusion Limited)

CIN: L74999DL1988PLC330668 legd. Office: A-2/78-B, Keshav Puram, New Delhi - 110 035, India

Regd. Office: A-2/78-B, Keshav Puram, New Delhi - 110 035, India Tel: +91 011 4011 0240, +91 99851 21834, E-mail: cs@gael.co.in, Website: www.gael.co.in

> Extract of Statement of Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year ended 31.03.2022

(Amount in Millions)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 31.03.2021 (Audited)
1	Total income from operations (Net)		4.28	4.74
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.55)	5.19	3.04
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.55)	+ 5.19	3.04
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.55)	5.18	3.04
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(1.55)	5.18	3.04
6	Paid-up Equity share capital (Face value Rs. 10/- each)	52.70	52.70	37.20
7	Other Equity [Reserves (excluding Revaluation Reserves)			-
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) a) Basic b) Diluted	(0.29) (0.29)	1.08	0.78

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarter & financial year ended results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly & year to date financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the company's website (www.gael.co.in).
- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13.05.2022.

For and on behalf of Golkonda Aluminium Extrusions Limited

Serum Institute, Symbiosis to set up centre for vaccine research

FE BUREAU Pune, May 13

VACCINE MANUFAC-TURER Serum Institute of India (SII) has inked an MoU with Symbiosis International University (SIU) to set up a research centre for vaccines and biologicals. SII will help set up an early



Adar Poonawalla

R&D facility within the Symbiosis campus at Lavale, Pune.

Adar Poonawalla, CEO, SII, said the research centre would be instrumental in advancing indigenous capabilities for end-to-end development of any futuristic technology and projects in the field of vaccines and biologics in collaboration with global partners.

Rajiv Yeravdekar, dean, faculty of health sciences, SIU, said they would get the best available talent and equip them with the latest technology that facilitates global partnerships and collaborations.

The centre will lead the development of vaccines, technologies, products, and innovations in immunisation practices that provide equitable access to life-saving interventions, especially in low- and middle- income countries.

A ICRA

Poonawalla Fincorp posts पत्र, या वसायत का प्राबट, या प्रशासन का पत्र, या अदालती डिक्री (जैसा लागू हो) का विवरण (एक प्रति सलग्न करें)

12. कानून, अनुबंध या अन्य दस्तावेज का प्रावधान जिसके तहत ऋण देय हो गया है (एक प्रति सलग्न करें)

अनुबंध के रूप में संलग्न दे अनुबंध अधिनियम के प्रावध देय हो गया है। धारा 13(2) के तहत नोटिस 19.04.2017 से सीमा शुरू

13. जिस तारीख से ऋण लिया गया था बैंक खाते का एक विवरण जहां राशि को जमा किया जाता है या क्रेडिटर द्वारा सामान्य रूप से कॉपोरेट देनदार के ऋण के संबंध में क्रेडिट प्राप्त किया जाता है

14. ऋण के अस्तित्व और चूक में राशि को साबित करने के लिए इस सूचना से जुड़ दस्तावेजों की सूची धारां 13(2) के तहत सूच की
 गणना पत्रक
 व्यक्तिगत गारंटी समझैत

 यदि आप मानतें हैं कि इस नोटिस की प्राप्ति से पहले ऋण चुका दिया गया है की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर हमें चुकौती भेजकर ऐसी प्रदक्षित करें :-क. गारंटर के खाते से अवैतानक राशि के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के रिकॉर्ड की एक ख. गारंटर द्वारा जारी अवैतनिक राशि के लिए चेक के नकदीकरण का सास्य 22 ग. किसी भी रिकॉर्ड की एक सत्यापित प्रति कि द करूर वैश्य बैंक लिन्नि

अधिहस्ताक्षरी आपसे अनुरोध करते हैं कि इस पत्र की प्राप्ति से चौदह दिने व भुगतान न किए गए ऋण का भुगतान करें, ऐसा न करने पर आपके खिल दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

कुंदन सिंह, द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, कॉर्चे द्वितीय तल, एमआरजे टॉवर, फेज रोड, करोल बाग, न

"IMPORTAN

Whilst care is taken prior to accept advertising copy, it is not possible to contants. The Indian Express (P) Limite be held responsible for such contents, n loss or damage incurred as a transactions with companies, associa individuals adversing in its newspa Publications. We therefore recomm readers make necessary inquiries before any monies or entering into any agreem advertisers or otherwise acting a advertisement in any manner whatsoeve

परिशिष्ट । प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठिल

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्यामूर्ति – दाता को

अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ मी है के बार क्रिक्त वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांकों को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अधिन ह

नीलामी अ आवृत्त प्रमास्ति कर्जदार(बी) / गारंटर(रों)(जी) सं. का नाम एवं पता (सम्पत्ति का

श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री बासुदेव राम, फ्लैट नं. डी-404, तृतीय तल, राज रिट्रीट-1, ग्राम-ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, जिला-गाजियाबाद, यू.पी.

श्री चंदर प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद और श्रीमती निधि तनेजा पत्नी श्री चंदर प्रकाश, सम्पत्ति नं. जी-129, जी गता तथा सम्पर्क नं. शामिल प्लॉट क्षेत्रफल 19 जमानती/यों के नाम जी – 128, जी ब्लॉक, प्रीत विहार, प्रकाश पुत्र श्री नानक चंद दिल्ली-110092 चंदर प्रकाश के नाम पर है।

ई—नीलामी हेतु नियम व शर्ते:— 1. ई—नीलामी "जैसा है जहाँ है" तथा "जैसा है जो मी है" के आधार पर ऑन ल ऑनलाईन संचालित की जायेगी। ऑनलाईन नीलामी बिक्री के अन्त http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर उप

सम्पत्ति(याँ) की बिक्री बैंक को ज्ञात या अज्ञात वर्तमान विद्यमान एवं मावी प्रमारो फीट चौड़ा रोड जिम्मेदार नहीं होगा।

जिम्मेदार नहीं होगा।

उ. इच्छुक बोलीदाता ई—नीलामी बंद होने से पूर्व एमएसटीसी के पास प्री-बिड र. 83,55,000/- (केवल रुपये तिरासी लाख पचपन हजार मात्र) जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 83600/-बोलीदाता को प्री-बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुक्षेष्ठ एवं समय : 17.06.2022 को 11.00 बजे पूर्वा. से 3.00 बजे अप. (10 मिनट के असीमित वस्तार सहित)
पूर्व ईएमडी राशि अधिम रूप से जमा करें।

पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें। 4. यह ई-नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिमूत्तिकरण एवं पुर्निनर्माण और प्रति unionbankofindia.co,in/lenglish/TendelViewAIIAuction.aspx में प्रावधानित लिंक देखें।

13-05-2022

Golkonda Aluminium Extrusions Limited

(Formerly known as Alumeco India Extrusion Limited) CIN: L74999DL1988PLC330668

Regd. Office: A-2/78-B, Keshav Puram, New Delhi - 110 035, India Tel: +91 011 4011 0240, +91 99851 21834, E-mail: cs@gael.co.in, Website: www.gael.co.in

> **Extract of Statement of Audited Standalone Financial Results** for the Quarter and Year ended 31.03.2022

(Amount in Millions)

		(miodite in minione)			
Sr. No.	Particulars ·	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 31.03.2021 (Audited)	
1	Total income from operations (Net)		4.28	4.74	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.55)	5.19	3.04	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.55)	5.19	3.04	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.55)	5.18	3.04	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(1.55)	5.18	3.04	
6	Paid-up Equity share capital (Face value Rs. 10/- each)	52.70	52.70	37.20	
7	Other Equity [Reserves (excluding Revaluation Reserves)			Section 1945	
8 .	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) a) Basic b) Diluted	(0.29)	1.08 1.08	0.78 0.29	

The above is an extract of the detailed format of quarter & financial year ended results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly & year to date financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the company's website (www.gael.co.in).

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13.05.2022.

> For and on behalf of Golkonda Aluminium Extrusions Limited Sd/-

Place: New Delhi Date: 13.05.2022

Anand Bharti Whole Time Director DIN: 02469989

Union Bank

क्षेत्रीय कार्यालय देहरादुन राधा पैलेस, 78 राजपुर रोड देहरादून 248001

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

(प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्राम-ब्रह्मपुर चर्फ मोचून न्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित 950 वर्ग पुट या 88.26 वर्ग, जिसका भौतिक कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया था, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) श्री बासुदेव (मौतिक कब्जा यों) से यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के निम्नलिखित बकायों की वसूली के लिए उसकी बिक्री ''जहाँ है जैसे हैं'', ''जों है यही हैं'' तथा वहीं है'' आधार पर नीचे वर्णित तिथियों पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि भी यहां नीचे वर्णित हैं :

दिलाराम चौक, देहरादून शाखा, 75 राजपुर रोड, देहरादून-248001 तथा 8847668648 1. मैसर्स एलाइड निधि स्पिरिट्ज एंड बेवरेजेज प्रा. लिमिटेड, बी-204 नेहरू कॉलोनी, देहरादून-248001 2. निदेशक श्री नवनीत कुमार शर्मा, ए-13, पनाचे घाटी, सहस्रधारा रोड, देहरादून 3. निदेशक श्री उमेश कुमार शर्मा, बी-204 नेहरू कॉलोनी,

28.11.2021 तक बकाया राशि रु. 7698141.23 तथा भावी ब्याज, लागत एवं व्यय देहरादून-248001 4. गारंटर श्रीमती निधि शर्मा पत्नी श्री नवनीत

• • प्राधिकृत अधिकारी

2. अघोहरताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं झान के अनुसार सम्पति(यो पर (भीविक कब्जा) अधिकारों / बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी से खसरा नं. 1075 क मिन, मौजा-अधोईबाला, तहसील देहरादून, उत्तराखण्ड का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 223.20 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्रीमती निधि शर्मा के वचनवद्भता/ प्रतिविद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा।

शर्मा, ए-13, पनाचे घाटी, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून -248001

दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति

विस्तृत नियम एवं शर्ता https://www.ibapi.in

5. ई—नीलामी के अन्य नियम व शर्ते निम्नलिखित देबसाईटों https://ibapi.in नागिन तथा संविदा नियमों के लिए https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp देखें।

नर्ड दिल्ली